

लूट के मुकदमे में वांछित शातिर लुटेरा गिरफ्तार, लूट में प्रयुक्त मोटर साइकिल व अवैध असलहा बरामद।

श्री एस आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में व श्री सरवणन टी क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी।

दिनांक 09.08.2021 वादी श्री अमित सिंह पुत्र श्रीकान्त सिंह निवासी के-171 शिवपुरी कालोनी कामता चिन्हट लखनऊ स्थाई पता मिर्जापुर बैरिया बल्लिया, बैरिया बलिया उ0प्र0 ने थाना पर लिखित सूचना दिया कि दिनांक 06.08.2021 को अज्ञात बाइक चोरों द्वारा वादी का मोबाइल वन प्लस नोर्ड झप्पटा मारकर लूट लिया था। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर पर मु0अ0सं0 402/2021 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान के द्वारा के सुपूर्द की गयी थी। गहनता से विवेचना में 02 अभियुक्त 1-फरहान, 2-फरदीन प्रकाश में आये थे जिसमें दिनांक 16.08.21 को प्रकाश में आये 01 अभियुक्त फरहान पुत्र मुस्तकीम नि0 मो0 मतानी थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था तथा शेष की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.09.21 को श्री हरपाल सिंह बालियान, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वार मुखबिर की सूचना पर गर्ग नदी की ओर से एक बजाज पल्सर 200 सीसी मो0सा0 UP27AK1637 को अजीजगंज तिराहे पर से अभियुक्त फरदीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से करीब एक 01 आधार कार्ड अमित सिंह का तथा 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गयी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 478/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

1-फरदीन पुत्र सैयद वहिइल उर्फ पप्पू निवासी मो0 मस्जिदगंज थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1-बजाज पल्सर 200 सीसी मो0सा0 UP27AK1637 (घटना में प्रयुक्त)

2-वनप्लस नोर्ड -2 का कवर व 500 रुपये

3-एक आधार कार्ड अमित सिंह

4-एक तमंचा 315 बोर

5-एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियुक्त का विवरण:-

1-मु0अ0सं0 478/2021 धारा 3/25 A.ACT

अपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 402/2021 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1-श्री हरपाल सिंह बालियान प्र0नि0 थाना कोतवाली शाहजहाँपुर।

2-उ0नि0 श्री पवन कुमार पाण्डेय प्रभारी चौकी अजीजगंज थाना कोतवाली शाहजहाँपुर।

3-हे0का0 359 संतोष कुमार वर्मा थाना कोतवाली शाहजहाँपुर।

4-हे0का0 430 संतोष कुमार थाना कोतवाली शाहजहाँपुर।

5-का0 2323 रोहित यादव थाना कोतवाली शाहजहाँपुर।